

प्रेस नोट

दिनांक-04.09.2022

जनपद सुलतानपुर

थाना-दोस्तपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा पुलिस मुठभेड़ में फ्रेन्चाइजी संचालक से लूट करने वाले 02 शातिर लूटेरो को 02 अदद अवैध असलहा मय 02 अदद खोखा कारतूस, 01 अदद बुलट(मो0साइकिल), दो अदद मोबाईल फोन व लूट के रुपयों को बरामद कर किया गिरफ्तार

दिनांक- 24.08.2022 को सुबह करीब 11 बजे थाना दोस्तपुर क्षेत्रान्तर्गत फ्रेन्चाइजी संचालक जीतेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र स्व0 दलपतसहाय पाण्डेय निवासी ग्राम- विनवन, गोशैसिंहपुर में अपनी दुकान खोल रहे थे। तभी लाल बुलट से अज्ञात दो बाइक सवार आये और पूछा कैसे निकाल देंगे और दुकान के अंदर घुस आये। मौका देखते ही कैसे छीनने लगे विरोध करने पर संचालक को गोली मार 70000 रुपये ले कर भाग निकले । फ्रेन्चाइजी संचालक के दाहिने हाँथ पर कोहनी के नीचे गोली लगी है। जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 210/2022 धारा 394/307/411 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया।

थाना- दोस्तपुर अन्तर्गत हुये लूट की घटना के सम्बन्ध में श्री बृज भूषण अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन, लखनऊ द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही की समीक्षा की जाती है। जिसके क्रम में पुलिस उपमहानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह के दिशा निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर कुशल निर्देश में व अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण में प्र0नि0 दोस्तपुर व स्वाट टीम के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी थी।

पुलिस टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई तथा अभिसूचना तंत्र को सक्रिय किया गया। जमीनी सूचना एवं अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि थाना दोस्तपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2022 धारा 394/307/411 भा0द0वि0, गोशैसिंहपुर वाली लूट की घटना करने वाले अपराधी बुलट मोटर साइकिल से बिरसिंहपुर की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सर्विस रोड पकड़कर आ रहे हैं और अम्बेडकर नगर जाने की तैयारी में हैं, इस सूचना पर थाना-दोस्तपुर पुलिस टीम व स्वाट टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए गन्तव्य स्थान पर पहुँचकर देखा तो, बिरसिंहपुर की तरफ से एक बुलट मोटर साइकिल आती हुई दिखाई पड़ी जैसे ही बुलट मोटर साइकिल अण्डरपास तिराहे पर आयी तो हम पुलिस वाले सतर्क होकर आगे बढ़े और मोटरसाइकिल रोकने का हाथ से इशारा किये कि सामने पुलिस देखकर बुलट मोटर साइकिल सवार सकपका गये और बुलट मोटर साइकिल को मोड़ कर अण्डरपास से अलहदादपुर की ओर भागने का प्रयास किये किन्तु असन्तुलित होकर बुलट मोटर साइकिल सहित गिर गये, पुलिस के ललकारने पर अभियुक्त द्वारा अपने आप को गिरफ्तारी से बचाने हेतु जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर इधर-उधर भागने का प्रयास किये कि मौके पर ही घेरकर पकड़ लिया गया । कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तगण 1. अर्जुन पाण्डेय पुत्र रामबोध पाण्डेय निवासी सहिनवा थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर 2. हर्षित मिश्रा उर्फ डग्गू पुत्र लाल बहादुर मिश्रा निवासी धरमपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर बताया गया।

दिनांक 24.08.2022 को समय करीब 11.00 बजे दिन में हम दोनों ने इन्ही तमंचो व इसी बुलट मोटर साइकिल से गोशैसिंहपुर बाजार में एक बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र संचालक को गोली

मारकर लूट किये थे। जिसमे से बीस हजार रुपया उसके काउंटर के दराज से निकाले थे तथा पचास हजार रुपया उसके बैग से ले लिये थे । बैग को दुकानदार ने पकड़ लिया था जो छोड़ नहीं रहा था इसलिए उसको गोली मारनी पड़ी थी। लूट करने के बाद हमलोग सेमरी रोड पर जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सर्विस रोड पकड़कर पीढ़ी होते हुए सुलतानपुर की तरफ चले गये थे । बैग मे से रुपया निकालकर खाली बैग रास्ते मे मोतीगंज के पास नहर में फेक दिये थे और सत्तर हजार रुपये मे से 35-35 हजार हम दोनो लोग आपस मे बाँट लिये थे। उसी मे से खर्च के बाद बचे हुए रुपये हम लोगो के जेब मे थे जो आप लोगो ने हम लोगो के जेब से बरामद किये है ।

बुलट मोटर साइकिल का कागजात तलब किया गया तो नहीं दिखा सके, पूछने पर बता रहे है कि हम लोग नोएडा में रहते हैं तथा वहीं पर प्राइवेट नौकरी करते हैं। इस मोटर साइकिल को हमलोगो ने नोएडा के गौर सिटी से दिनांक 01.11.2021 को चुराया था तभी से हमलोग इसको चला रहे है।

पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर करना उनके कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद होना तथा अभियुक्त 1. अर्जुन पाण्डेय के कब्जे से एक अदद तमंचा 12 बोर व 2. हर्षित मिश्रा उर्फ डग्गू के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ । जिसके सम्बन्ध मे क्रमशः धारा 307/411 भादवि व 3/25 A Act का तथा पूर्व पंजीकृत मु0अ0सं0 210/2022 धारा 394/307/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

अभियुक्तगणों का नाम पता

1. अर्जुन पाण्डेय पुत्र रामबोध पाण्डेय निवासी सहिनवा थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर
2. हर्षित मिश्रा उर्फ डग्गू पुत्र लाल बहादुर मिश्रा निवासी धरमपुर थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर

बरामदगी-

1. 57,300 रुपया नगद (लूट के)
2. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा 315 बोर
3. एक अदद तमन्चा 12 बोर व एक अदद खोखा 12 बोर
4. बुलट मो0साइकिल नं0 UP85 BK9010 चोरी की
5. दो अदद मोबाईल फोन

गिरफ्तारी का दिनांक, समय तथा स्थान

आज दिनांक 04.09.2022 को समय करीब 7.30 बजे सुबह, थाना स्थानीय अन्तर्गत अण्डरपास से अलहदादपुर की ओर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री प्रवीण यादव प्रभारी निरीक्षक थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर
2. उ०नि० उपेन्द्र सिंह प्रभारी स्वाँट/सर्विलांस टीम जनपद सुलतानपुर
3. उ०नि० सीताराम यादव थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर
4. हे०का० अनुराग सर्विलांस टीम जनपद सुलतानपुर
5. हे०का० संतोष स्वाँट टीम जनपद सुलतानपुर
- 6- हे०का० समरजीत स्वाँट टीम जनपद सुलतानपुर
7. का० विकास स्वाँट टीम जनपद सुलतानपुर
8. का० तेजभान स्वाँट टीम जनपद सुलतानपुर
- 9 का० शैलेश राजभर स्वाँट टीम जनपद सुलतानपुर
10. का० रवि प्रकाश मिश्रा थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर
11. का० मन्टू कुमार थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर
12. का० अनिल यादव थाना दोस्तपुर जनपद सुलतानपुर